



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय)

15 ए, सैक्टवर- 7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075.

दूरभाष : (011) 25309300

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) (संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय) लेखाधिकारी के चार (04) रिक्त पद (जिसमें से दो पद सीसीआरटी दिल्ली तथा एक पद क्रमशः क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद तथा उदयपुर हेतु) समूह 'ब' वेतन बैंड - 2, रु. 9300 - 34,800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- (सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 7) को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / स्थानांतरण विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अपने कार्यालय हेतु लेखाधिकारी के चार (04) रिक्त पद समूह 'ब' वेतन बैंड - 2, रु. 9300 - 34,800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- (सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 7) को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / स्थानांतरण विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

रिक्त पदों का ब्यौरा एवं पात्रता शर्तें

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / स्थानांतरण

केंद्र / राज्य सरकारों के अधीन या सरकार के अधीनस्थ / संलग्न कार्यालय / स्वायत्त निकायों में कार्यरत लेखा / लेखा परीक्षा विभागों में सेवारत अधिकारी जो कि :

(क) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारित हो

अथवा

(ख) जिन्होंने वेतन बैंड -2, रु. 9300-34,800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- (सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन संरचना, वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 07) की श्रेणी में पांच (05) वर्ष नियमित सेवा की है,

सीधी भर्ती:-

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
- वेतन मान रु. 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रु.4600/- में कार्यरत सरकारी / अर्ध - सरकारी संगठनों के कर्मचारी जिनके पास पांच (05) वर्षों का वित्त का अनुभव हो।

टिप्पणी 1:- सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष है। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 5

साल तक की छूट)। उम्मीदवारों की निर्धारित आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से ही मान्य होगी।

टिप्पणी 2:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4:- प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रायोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01-01-2006 से पहले, या उस तारीख से जिससे छठे तथा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नत यन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पणी 5:- लेखाधिकारी के पद पर चयनित उम्मीदवार भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें गुवाहाटी, हैदराबाद और उदयपुर में स्थित CCRT के किसी भी क्षेत्रीय केंद्र शामिल हैं।

टिप्पणी 6:- कोई भी सूचना शुद्धि पत्र इत्यादि सीसीआरटी की वेबसाइट पर ही जारी किये जायेंगे।

4. आवेदन कैसे करें

निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 'क') में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, जिसके साथ पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां (संपूर्ण एवं नवीनतम रिपोर्ट सहित) जिसके साथ (i) सतर्कता अनापति, (ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, (iii) काडर अनापति एवं (iv) बड़ा/छोटा दंडों के पिछले दस वर्षों का विवरण सहित एवं अन्य सभी संबंधित तथा समर्थित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न कर उचित माध्यम से, इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि (यानि 08.02.2020) से 45 दिनों के अन्दर, निदेशक, सीसीआरटी को उपरोक्त पते पर भेज दें। अपूर्ण अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संक्षेप में और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार व्यक्तिगत / बातचीत के लिए चुने गए उम्मीदवारों को नियत समय में सूचित किया जाएगा और इस संबंध में फोन ईमेल / पूछताछ नहीं की जाएगी। / पर कोई पत्राचार

निदेशक,
सीसीआरटी, नई दिल्ली



Centre for Cultural Resources and Training

(Under the aegis of Ministry of Culture, Government of India)

15-A, Sector-7, Dwarka, New Delhi – 110075

Tel. No. 25309300

Filling up of Four (04) posts of Accounts Officer, Group 'B' in PB – 2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay of Rs. 4600/- (revised pay scale as per 7th CPC, Level-7 in Pay Matrix), by Transfer on Deputation / Transfer failing which by Direct Recruitment, in the Centre for Cultural Resources and Training (CCRT), an autonomous organization under the administrative control of the Ministry of Culture, Govt. of India (out of four posts two posts are in CCRT New Delhi and one post each in its Regional Centres at Hyderabad and Udaipur respectively).

Applications are invited from eligible officers serving under the Central/State Governments or those employed in sub-ordinate/attached offices/autonomous bodies under the Govt. of India, for appointment to (04) posts of Accounts Officer, Group 'B' in PB – 2, Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay of Rs. 4600/- (revised pay scale as per 7th CPC, Level-7 in Pay Matrix), by Transfer on Deputation / Transfer failing which by Direct Recruitment, in CCRT.

Details of posts and Eligibility conditions:

For Transfer on Deputation / Transfer

Officers serving in Accounts / Audit Depts., under the Central / State governments or those employed in subordinate / attached office / autonomous bodies under the Govt. of India.

- (i) Holding analogous post or
- (ii) with at least 5 years service in the scale of Rs. 9300-34800 + 4600/- GP or 8 years in the scale of Rs. 9300-34800 + 4200 GP.

For Direct Recruitment:-

Graduate from a recognized university with 5 years experience in Accounting in Government /Semi-government organization in the pay scale of Rs. 9300-34800 + 4600/- GP

Or

8 years service in the pay scale of Rs. 9300-34800 + 4200/- GP

Note 1: Age limit for direct recruits – Up to 40 years. (Relaxable for Govt. servant up to 5 years and candidates belonging to SC/ST/OBC categories, in accordance with the instructions or orders

issued by the Central Govt.). The crucial date for determining the age – limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates.

Note 2: The maximum age limit for appointment by Transfer on deputation / Transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years.

Note 4: For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC & 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which the grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

Note 5: **The Candidates selected to the post of Accounts Officer are liable to transfer anywhere in India including any of the Regional Centers of CCRT situated in Guwahati, Hyderabad and Udaipur.**

Note 6: Any information or Addendum / Corrigendum will be posted on CCRT's website.

How to apply

Applications in the enclosed prescribed proforma (Annex 'A') and complete and up-to-date ACR/APAR dossiers for the last five years of the officers who can be spared in the event of their selection alongwith (i) vigilance clearance, (ii) integrity certificate, (iii) cadre clearance and (iv) major/minor penalty statement for the last 10 years should be forwarded to the Director, CCRT, at the above mentioned address, through proper channel within a period of 45 days , from the date of publication of advertisement in the Employment News (i.e. 08.02.2020). Applications received after due date or other wise incomplete will not be considered and rejected summarily and no correspondence will be entertained in this regard. Candidates shortlisted for interview / personal talk will be informed in due course and no correspondence / enquiry will be entertained over the phone / email in this regard.

Director,
CCRT, New Delhi

Application Format / आवेदन प्रपत्र

Application for the post of **ACCOUNTS OFFICER (लेखा अधिकारी)**

Please tick (✓) applying for Transfer on deputation / Transfer / Direct Recruitment

कृपया चिह्नित करें (✓) आवेदन किया है:- प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / स्थानांतरण / सीधी भर्ती

Passport Size
photograph
पासपोर्ट आकार
की तस्वीर

1. Name of the applicant (in BLOCK letters) :
आवेदक का नाम, स्पष्ट अक्षरों में

2. Date of Birth (In Christian era) :
जन्म तिथि (अंग्रेजी कैलण्डर के अनुसार)

3. Whether belongs to SC/ ST/ OBC :
क्या आप अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ.पि.व. से संबंध रखते हैं

4. Service to which you belong :
आप किस सेवा के सदस्य हैं

5 (i) Date of Entry into Service
सेवा में प्रविष्टि की तारीख

(ii) Date of Retirement on superannuation under Central / State Govt. :
केन्द्र / राज्य सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति की तारीख

6 . Postal Address (with Telephone / Mobile No. & e-mail ID) :
डाक पता (दूरभाष / मोबाईल नं. और इ-मेल पता सहित)

7 . Educational Qualifications :
शैक्षिक अहर्ताएं

S.No. क्र.सं.	Degree/ Certificate डिग्री / सर्टिफिकेट	Subjects विषय	Name of the University / Board विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम	Division / Percentage श्रेणी / प्रतिशत

8 Details of Employment and Experience in chronological order,
starting from present employment :
सेवा और अनुभव का क्रमानुसार ब्यौरा, वर्तमान नियुक्ति से शुरू करके :

S.No.	Name of Employer	Post Held on regular basis	Period		*Pay Band & Grade Pay / Pay Scale of the post held on regular basis	Whether held on regular / deputation / ad-hoc basis	Nature of duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for	
			From	To				
क्र.सं.	नियोक्ता का नाम	नियमित नियुक्ति का पद नाम	अवधि	कब से	कब तक	*वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन / वेतन मान, नियमित आधार पर धारण किए हुए पद का	किस आधार पर धार्य (नियमित/ प्रतिनियुक्ति/ तदर्थ)	निष्पादित किए गए कार्य का विवरण (विस्तार से), इस पद के लिए आवश्यक अनुभव की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए

--	--	--	--	--	--	--

* **Important** – Pay Band and Grade Pay granted under ACP / MACP Scheme are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay / Pay Scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of financial upgradation under ACP/ MACP Schemes with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below :-

* **महत्वपूर्ण** – ए.सी.पी / एम.ए.सी.पी परियोजना के अंतर्गत अनुदत्त वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन, अधिकारी के व्यक्तिगत होने के कारण उल्लेख न करें । केवल नियमित आधार पर धारण किए गए पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन उल्लेख करें । आवेदक को ए.सी.पी/एम.ए.सी.पी. परियोजना आधार पर दिए गए वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का उल्लेख नीचे इस प्रकार करें :-

Office./ Institution कार्यालय / संस्था	Pay, Pay Band and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी परियोजना के अंतर्गत मिल रहे वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	From कब से	To कब तक

9 . Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same) :
क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अहर्ताएं पूरा करते हैं(यदि कोई अहर्ताएं नियमों में निर्धारित अहर्ताओं के समतुल्य माना जाना है, तो उसके लिए क्या प्राधिकार है)

Qualifications / Experience required as mentioned in the advertisement / vacancy circular विज्ञापन / रिक्ति परिपत्र के अनुसार अपेक्षित अहर्ताएं/ अनुभव का विवरण	Qualifications / Experience possessed by the officers अधिकारी के आधिपत्य में अहर्ताएं / अनुभव का विवरण
Essential / अनिवार्य (A)Qualification / अहर्ताएं (B)Experience / अनुभव	Essential / अनिवार्य (A)Qualification / अहर्ताएं (B)Experience / अनुभव
Desirable / वांछनीय (A)Qualification / अहर्ताएं (B)Experience / अनुभव	Desirable / वांछनीय (A)Qualification / अहर्ताएं (B)Experience / अनुभव

10 . Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post
कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके द्वारा दिए गए प्रविष्टियों के आधार पर, आप अपेक्षित अहर्ताएं एवं इस पद के लिए आवश्यक अनुभव रखते हैं

11 . In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state :

यदि आप अभी प्रतिनियुक्ति/सविदा के आधार पर सेवारत हैं तो कृपया बताएं

- The date of initial appointment
नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि
- Period of appointment on deputation / contract
प्रतिनियुक्ति/सविदा आधार पर सेवावधि
- Name of the parent office / organization to which the applicant belongs
आवेदक मूल रूप से किस कार्यालय / संगठन से संबंधित हैं
- Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the Parent Organization
स्वायत्त आधार पर मूल कार्यालय / संगठन में धारण किए गए पद का नाम एवं वेतनमान

Note / टिप्पणी:

In case of officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre / department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate.

आवेदक जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत हैं, का आवेदन पत्र उनके मूल कार्यालय / संगठन के काइड नियंत्रण अधिकारी द्वारा सत्यनिष्ठा तथा अनुशासनात्मक / सतर्कता संबंधी प्रमाण पत्र सहित अग्रेषित होना चाहिए ।

12 . Additional details about present employment. Please state whether working under

वर्तमान सेवा से संबंधित अतिरिक्त सूचना । कृपया बताएं आपकी सेवा किस तरह की है

- Central Govt. / केन्द्र सरकार
- State Govt. / राज्य सरकार
- Autonomous organization / स्वायत्त निकाय
- Govt. Undertaking / सरकारी उपक्रम
- Universities / विश्वविद्यालय

13 . If any post held on Deputation in the past by the applicant,

date of return from the last deputation and other details :

आवेदक विगत में यदि किसी पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त थे,
तो उस पद से वापसी की तारीख एवं अन्य विवरण दें :

14 . Please state whether you are working in the same Department and

are in the feeder grade or feeder to feeder grade :

कृपया आवेदक यह बताएं कि क्या वह इसी विभाग में प्रदायक पद या
प्रदायक के प्रदायक पद पर कार्यरत हैं :

15 Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place (please indicate the pre-revised scale of pay, as well):

क्या आप संशोधित वेतनमान पर कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो संशोधित वेतनमान किस तिथि से लागू हुआ ये बताएँ (कृपया संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएँ)

16 . Existing total emoluments drawn per month :

वर्तमान मासिक कुल परिलब्धियाँ

17 . Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications, (ii) professional training, (iii) achievements i.e., research publications, awards / scholarships, affiliation with professional bodies / institutions, research / innovative majors involving official recognition etc. and (iv) work experience over and above prescribed in the vacancy circular / advertisement) {Please enclose a separate sheet, if required} :

अतिरिक्त सूचना, जो आप अपनी उपलब्धियों से संबंधित पद की उपयुक्तता के बारे में बताना चाहें (इन विषयों को ध्यान में रखते हुए उपलब्धियों के बारे में सूचना दें (i) अतिरिक्त शैक्षिक अहर्ताएं, (ii) वृत्तिक प्रशिक्षण, (iii) पुरस्कार / छात्रवृत्ति प्राप्ति का विवरण, वृत्तिक संस्थाओं / संगठनों से संबंध का ब्यौरा, अनुसंधान / नवप्रवर्तन कार्यों के लिए प्राप्त आधिकारिक मान्यता, आदि

(iv) रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन में निर्धारित कार्यानुभव से अधिक कार्य करने का अनुभव, यदि हो तो (यदि आवश्यकता हो तो, कृपया अलग से शीट लगाएं)

I have carefully gone through the vacancy circular / advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of essential qualification / work experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information / details furnished by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing has been suppressed / withheld.

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन में दिए गए सभी सूचनाओं को भली भाँति देखने के पश्चात ही अपना शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। मुझे ज्ञात है कि सभी संबंधित दस्तावेजों की, जो मैंने प्रस्तुत किए हैं, का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। मेरे द्वारा दिए गए सभी सूचनाएं / जानकारी मेरे ज्ञान से सत्य एवं सही हैं तथा मैंने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना / जानकारी का दमन नहीं किया है, जिसका मेरे इस पद में चयन के लिए वहन रखता हो।

Signature of Candidate

आवेदक के हस्ताक्षर

Date.....

दिनांक

Address

पता

Certificate to be given by the Department
विभाग / संगठन द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र

It is certified that :

यह सत्यापित किया जाता है कि :

- (i) Information given above by the applicant, Shri/Smt. _____, designation _____, have been verified as per the service records and found correct.
श्री / श्रीमती _____, पदनाम _____, द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए समस्त सूचनाओं की आवेदक की सेवा अभिलेख के माध्यम से जाँच कर ली गई है और ठीक पाया गया है ।
- (ii) The integrity of the applicant is beyond doubt.
आवेदक की इमानदारी और सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है ।
- (iii) The applicant is clear from vigilance angle and no disciplinary / vigilance case is pending or contemplated against him/her.
आवेदक की सतर्कता अनापत्ति सत्यापित की जाती है । उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या सतर्कता संबंधी मामला अर्निणित या अपेक्षित नहीं है ।
- (iv) No major / minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years.
आवेदक को पिछले दस वर्षों में किसी बड़े या छोटे दंड से दंडित नहीं किया गया है ।
- (v) The cadre controlling authority of the applicant has given its clearance for his applying for the above post.
आवेदक को उनके काडर नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र भेजने के लिए अनुमति प्रदान की गई है ।
- (vi) The ACR / APAR Dossier (duly attested on each page by an officer not below the rank of Under Secretary to the Govt. of India or equivalent) for the last 05 years of the applicant is enclosed.
आवेदक की पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां, हर पृष्ठ पर अवर सचिव / समतुल्य अधिकारी द्वारा सत्यापित कर, संलग्न की जाती है ।
- (vii) The applicant will be relieved in time to report for duty, in the event of his selection for appointment on deputation basis in your department.
आवेदक को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर आपके विभाग में चयनित होने पर, समय से कार्यमुक्त किया जाएगा ।

(Signature of the Head of the Office)
(विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर)
with designation and Seal
पदनाम एवं कार्यालय के मोहर सहित

Place / स्थान :.....

Date / तिथि :.....